

DAULTPUR DHAWAI TO BARKADI
NAHAR TO DHAWAI ROAD (BLOCK-KALER)

यमुना नदी NH-98 MMUSV

Measurement Book

Schedule XLV-Form No. 134

625
~~625~~
~~625~~

DIVISION

SUB-DIVISION

कार्यपालक अभियंता
प्रकाशवि० (कार्य) प्रमंडल
अखिल

Ashbind Kumar

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्त में कुल 100 पन्ने मशीन मुद्रित
हैं, जो श्री लाल बहादुर सिंह सहाय
अभिप्रेत करि आर प्रमंडल कलेक्टर
के नाम से निर्गत किया जाता है

कार्यपालक अभियंता
ग्रं०का०वि०(कार्य) प्रमंडल
Laxmi अखिल
13-04-2020

Sch, XLV-Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

625

No. 625

624

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

2nd a/c Bill

Record measurement

7

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work					
Construction of road					
From station to					
to					
NH 98.					
Agency name					
Project name					
Agreement No.					
23/560/10000					
Date of contract					
22/10/2020					
Date of completion					
25/10/2020					
Date of entry					
30/9/2020					

1. PCC Granular sub-base with well graded material

width
 $50 \times 6.50 \times 1.00 \times 0.20 = 6.50 \text{ m}^2$
 $= 6.50 \text{ m}^2$

2. PCC laying spreading and compacting stone aggregates of specific size job

$1 \times 17.00 \times \frac{5.25 + 3.75}{2} \times 0.075 = 5.74 \text{ m}^2$

$1 \times 5 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.075 = 42.19 \text{ m}^2$

$1 \times 5 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.075 = 42.18 \text{ m}^2$

$1 \times 12.00 \times \frac{3.75 + 5.00}{2} \times 0.075 = 3.94 \text{ m}^2$

$1 \times 10.00 \times \frac{4.75 + 3.75}{2} \times 0.075 = 3.19 \text{ m}^2$

Continuation

Scanned by CamScanner

Abstract of Cost

13

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1. Plv setting out corner of reference bench job					
Qty vide item no (1) Page 1					
				= 1 nos	
				@ B 3491.65 / nos	3492 = 00
2. Plv construction of reference pillars					
Qty vide item no (2) Page 1					
				= 2 nos	
				@ B 1587.48 / nos	3175 = 00
3. Plv clearing and grubbing					
Qty vide item no (3) Page 1					
				= 0.185 Hect	
				@ B 49496.70 / Hect	9,157 = 00
4. Construction of embankment with material obtained from 100m					
Qty vide item no 4(i) Page 2					
				= 131.63 m ²	
Qty vide item no 7(i) Page 10					
				= 67.54 m ²	
				= 199.17 m ²	
				@ B 175.11 / m ²	34,877 = 00
5. Construction of embankment with material obtained from 100m					
Qty vide item no 4(ii) Page 2					
				= 307.13 m ²	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Qty wide item (11) pgs 10					
= 2 each					
@ 3823.15/each					7646.30
1/6 Plv of fixing of retro -					
reflecting					
Qty wide item (12) pgs 10					
= 2 each					
@ 4950.11/each					9900.22
1/6 Plv of fixing of retro -					
reflecting					
Qty wide item (13) pgs 10					
= 2 each					
@ 4834.25/each					9668.50
1/6 Plv Reinforced Cement Concrete					
M/S grade boundary					
Qty wide item (14) pgs 11					
= 6 each					
@ 516.26/each					3098.56
1/6 Plv road marking with					
hot applied thermite					
Qty wide item (15) pgs 11					
= 103.80 m					
@ 735.46/m					76,334.58
					B 21,11,025.00
Att Gst 12%					B 2,53,323.00
Att LC 1%					B 21,110.00
					B 23,85,458.00
Less 0.56% (deduct)					13,358.00
					B 23,72,100.00

Continuation

Continuation